



BSL/SEC/2024-25/23

10th July, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
(Maharashtra)
Scrip Code: 503722

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza Bandra–Kurla,
Bandra (East), Mumbai–400051
(Maharashtra)
Symbol :BANSWRAS

Sub: Intimation under Regulation 30 & Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Newspapers cuttings of notice to shareholders for the attention of equity shareholders of the company in respect to transfer of dividend and equity shares of the Company into Investor Education and Protection Fund (IEPF), published in Business Standard (English) and Business Remedies (Hindi) on 9th July, 2024.

This is for your information, please

Yours faithfully
For BANSWARA SYNTEX LIMITED

(H.P. KHARWAL)
Company Secretary & G.M. (Legal)
Membership No. FCS 12923
Ecl. As above

BANSWARA SYNTEX LIMITED

CORPORATE OFFICE

5th Floor, Gopal Bhawan, 199 Princess Street Mumbai 400 002
Tel : + 91 22 66336571-76 | Fax : + 91 22 66336586
Email : info@banswarasyntex.com

REGISTERED OFFICE & MILLS

Industrial Area, Dahod Road, Banswara – 327001 (Rajasthan)
Tel : + 91 2962 240690-93, 257679-68 | Fax : + 91 2962 240692
Email : secretarial@banswarasyntex.com



BANSWARA SYNTAX LIMITED

CIN: L24302RJ1976PLC001684

Regd. Office: Industrial Area, Dahod Road, P.B. No. 21,
Banswara (Raj.) Ph. No.: 02962- 240892, 257694, 257680,

Website: www.banswarasyntax.com, Email: secretarial@banswarasyntax.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of unclaimed final dividend and equity shares FY 2016-17

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto, the final dividend declared for the financial year 2016-17 which remained unclaimed for seven years will become due for transfer to the IEPF on **October 20, 2024** and corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF. The details of such unclaimed dividends and shares are uploaded on the website of the Company at https://www.banswarasyntax.com/wp-content/uploads/2024/07/Equity_shares_TFR_IEPF_Suspense_ACC_2024.pdf

The Company has also communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, for taking appropriate action(s).

In case shares held in physical form: Shareholders who possess physical share certificates are informed that the Company will issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original. The duplicate shares certificate(s) will be converted into DEMAT form and transferred to IEPF. The original share certificate(s) will stand automatically cancelled.

In case shares held in demat form: The concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed/ unpaid dividends amounts on or before **October 20, 2024**. In the event, a valid claim is not received from the concerned shareholders on or before **October 20, 2024**, the Company would proceed to transfer the equity shares and unclaimed dividends in favor of IEPF without any further notice. Kindly note that thereafter the shareholders may claim the dividend and corresponding shares from the IEPF authority by making application and following the prescribed procedure for the same.

Shareholders holding shares in Demat form may contact the respective Depository Participants to update Address/Bank Details/NACH/ECS mandate, if any and Shareholders holding shares in Physical form may update their bank details, KYC details, signature, mobile number and email id by submitting hard copy of duly signed Form ISR-1/ISR-2 along with relevant documents mentioned therein to the RTA. The said form is available at <https://www.banswarasyntax.com/Investors/>. Further, Shareholders are advised to dematerialize their shares held in physical form.

For claiming unclaimed/unpaid dividend the shareholders may send request to the RTA of the Company i.e.

Computech Sharecap Limited,
145-147 Mahatma Gandhi Road,
Fort, Mumbai 400 001,
Tel: +91-22-22635000, Email ID: helpdesk@computechsharecap.in
Website:- <http://www.computechsharecap.com>

For Banswara Syntax Ltd

Sd/-

H. P. Kharwal

Company Secretary

Membership No. F-12923

Date : July 8, 2024

Place : Banswara

